

-:प्रेस नोट दिनांक 23.06.2022:-

थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।

थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा अफीम की तस्करी करने वाले 02 अपराधियों को 1.10 कि०ग्रा० ग्राम अफीम (अन्तराष्ट्रीय कीमत करीब 10 लाख रूपये) व 02 मोबाईल फोन व 02 मोटर साईकिल सहित किया गिरफ्तार:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी फरीदपुर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा अफीम की तस्करी करने वाले 02 अपराधियों को अवैध अफीम सहित गिरफ्तार किया गया । दिनांक 22.06.2022 को थाना हाजा से पुलिस टीम को गश्त के दौरान 02 व्यक्ति मो०सा० पर ग्राम इनायतपुर की तरफ जाने वाले नहर की पटरी के किनारे संदिग्ध अवस्था में खड़े थे । पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति का नाम आकाश पुत्र बाबूराम नि० रधौली थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली जिसके कब्जे से 480 ग्राम अफीम व एक मोबाईल REALME कम्पनी व 120 रु० नगद व एक मो०सा० सुपर स्पैलेण्डर UP20BW0332 बरामद हुयी दूसरे व्यक्ति का नाम यासीन पुत्र अहसान नि० मोहनपुर थाना फरीदपुर बरेली जिसके कब्जे से 620 ग्राम अफीम व 1 अदद मोबाईल फोन INFINIX कम्पनी व 340 रु० नगद व एक अदद मो०सा० पेशन UP25BN9325 बरामद हुयी । नियमानुसार पकड़े गये अफीम तस्करों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया ।

➤ **अफीम तस्करों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-**

- 1- मु अ सं 371/2022 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
- 2- मु अ सं 372/2022 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

➤ **गिरफ्तार अभियुक्त गणों का विवरण:-**

- 1- आकाश पुत्र बाबूराम नि० रधौली थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
- 2- यासीन पुत्र अहसान नि० मोहनपुर थाना फरीदपुर बरेली

बरामदगी का विवरण:- 02 अपराधियों को 1.10 कि०ग्राम अफीम (अन्तराष्ट्रीय कीमत करीब 10 लाख रूपये), 02 अदद मोबाईल फोन व 02 अदद मोटर साईकिल ।

अभि०गण को आपराधिक इतिहास:-

1. आकाश पुत्र बाबूराम नि० रधौली थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
मु०अ०स० 371/22 धारा 8/18/29 NDPS ACT थाना फरीदपुर बरेली
मु०अ०स० 404/21 धारा 8/18/29 NDPS ACT थाना फरीदपुर बरेली
2. यासीन पुत्र अहसान नि० मोहनपुर थाना फरीदपुर बरेली
मु०अ०स० 372/22 धारा 8/18/29 NDPS ACT थाना फरीदपुर बरेली

पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-उ०नि० श्री नवीन कुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली ।
- 2- का० 85 शिव कुमार थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
- 3-का० 1111 सुशील थाना फरीदपुर बरेली ।
- 4-का० इंतजार अहमद थाना फरीदपुर जनपद बरेली।